

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 जनवरी 2024-पौष 20, शक 1945

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्यप्रदेश 462011

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2024

अधिसूचना

क्रमांक-एफ-65NN-02/2023/पॉच/ 98 : : मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक-23 सन् 1956) की धारा 22 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक-37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरीय निकायों के उप निर्वाचन वर्ष-2023 (उत्तरार्द्ध) में माह जनवरी-2024 को पार्षद पद के लिए निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

स.क्र.	नगरपालिक निगम/ नगरपालिका परिषद/ नगर परिषद का नाम, जिले का नाम सहित	पद पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिक निगम भोपाल जिला भोपाल	पार्षद	41	इकतालीस	डॉ. रेहान सिद्धीकी	भारतीय जनता पार्टी
2	नगरपालिक निगम कटनी जिला कटनी	पार्षद	09	नौ	सचिन कुमार बहरे (सोन्)	भारतीय जनता पार्टी
3	नगरपालिक निगम कटनी जिला कटनी	पार्षद	36	छत्तीस	लव साहू	भारतीय जनता पार्टी
4	नगरपालिक निगम खण्डवा जिला खण्डवा	पार्षद	41	इकतालीस	बबलू पटेल उर्फ तारिक	इंडियन नेशनल काँग्रेस
5	नगरपालिक निगम रतलाम जिला रतलाम	पार्षद	31	इकतीस	करण कैथवास	भारतीय जनता पार्टी
6	नगरपालिका परिषद सिहोरा जिला जबलपुर	पार्षद	6	छह	ज्योति सुनील चक्रवर्ती	भारतीय जनता पार्टी
7	नगरपालिका परिषद धनपुरी जिला शहडोल	पार्षद	28	अट्ठाईस	गीता कोल	इंडियन नेशनल काँग्रेस
8	नगरपालिका परिषद सारणी जिला बैतूल	पार्षद	14	चौदह	बेबी मनोज ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी

स.क्र.	नगरपालिका निगम/ नगरपालिका परिषद/ नगर परिषद का नाम, जिले का नाम सहित	पद पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	नगरपालिका परिषद करेली जिला नरसिंहपुर	पार्षद	5	पाँच	ज्योति सोनी	भारतीय जनता पार्टी
10	नगरपालिका परिषद श्योपुर जिला श्योपुर	पार्षद	3	तीन	अकबर अली	निर्दलीय
11	नगर परिषद विजयपुर जिला श्योपुर	पार्षद	4	चार	नीलम उदयभान पाराशर	निर्दलीय
12	नगर परिषद मानपुर जिला इन्दीर	पार्षद	2	दो	रेखा जाट	निर्दलीय
13	नगर परिषद पटेरा जिला दमोह	पार्षद	14	चौदह	राजरानी कलू अहिरवाल	भारतीय जनता पार्टी
14	नगर परिषद बम्हनीबंजर जिला मण्डला	पार्षद	5	पाँच	अनिल रज्जू चन्द्रौल	भारतीय जनता पार्टी
15	नगर परिषद खुजनेर जिला राजगढ़	पार्षद	3	तीन	निर्मल कुमार जाटव	भारतीय जनता पार्टी
16	नगर परिषद सतवास जिला देवास	पार्षद	4	चार	निहारिका राठीर	भारतीय जनता पार्टी
17	नगर परिषद न्यू रामनगर जिला मैहर	पार्षद	2	दो	सुनीता-रामसुशील पटेल (भाई)	भारतीय जनता पार्टी
18	नगर परिषद न्यू रामनगर जिला मैहर	पार्षद	11	ग्यारह	रामसुशील पटेल (भाई)	भारतीय जनता पार्टी
19	नगर परिषद डही जिला धार	पार्षद	5	पाँच	नगीना रमीज राजा मकरानी	भारतीय जनता पार्टी
20	नगर परिषद डही जिला धार	पार्षद	12	बारह	फूलकुंवर - अमरसिंह वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
21	नगर परिषद माण्डव जिला धार	पार्षद	9	नौ	ममताबाई-तुलसीराम गावर	इंडियन नेशनल काँग्रेस
22	नगर परिषद ककरहटी जिला पन्ना	पार्षद	13	तेरह	राजेन्द्र गौड़	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक सिंह, सचिव.